



Yuvashakti Model School

इशोरइशर अर इअइकरीत

Sector-III, Rohini, Delhi- I | 0085

Class 1 Holiday Homework Session 2023 – 24

“Sunny days are here again. It’s time to relax and rejuvenate, play indoors with your mate and enjoy ice cream and shakes throughout the day.”



Dear Parents,

Summer break 2023 is going to be different. While it’s still a time for sunshine and fun, this year we need to be mindful of avoiding outdoor activities. It’s the perfect opportunity to help your child develop good values and skills.

We encourage you to spend constructive time with your child to support their development. We have compiled some activities that will channel their energy in a fruitful manner, while promoting self-reliance, confidence and overall growth.

Please consider engaging your child in these activities to insure they continue to learn and grow during the summer months.

1. The child should.... (To develop inter-personal skills)

- Be polite and speak softly.
- Use four magic words: Thank you, sorry, please and excuse me.
- Greet everyone with courtesy.
- Learn to wait for his/her turn.
- Share things with everyone.

2. The child should....(To make self-reliant)

- Help everyone at home.
- Try wearing clothes by their own.
- Arrange toys, books etc. after use.
- Take a duster and clean the furniture.
- Refill the water bottles.

Encourage & engage your child to take care of personal health & hygiene

- Cover nose/mouth while sneezing or coughing.
- Avoid licking fingers.
- Avoid sharing towel/handkerchief/brush/comb with other people.
- Avoid touching his/her eyes, nose, mouth, ears with dirty hands.
- Wash hands frequently.
- Brush teeth twice a day.
- Take a bath every day.
- Drink lots of water & eat healthy food.

➤ **ENGLISH**

1. Cursive connection book: - Do pg. no. 7 to 10.
2. English practice book: - Do pg. no. 24 & 50.
3. English course book: - Do pg. no.30.
4. Story for Life book: - Read Lesson – 1 and 2.

Q-1 Write 10 new words from the story and learn them.

Q-2 Learn the given vocabulary words in the book.

Note: Do the above questions in 3-in-1 notebook.

5. Do the given worksheet and paste it in 3-in-1 notebook.
6. Do reading practice daily.
7. Revise all the previous work for assessment.

➤ **हिंदी**

- * व्यंजन (क - ह) 5 बार लिखे।
- * 10 बिना मात्रा के शब्द लिखे।
- * 5 बिना मात्रा के शब्दों के वाक्य बनाएं।
- * 10 आ ा की मात्रा के शब्द लिखे।
- * 5 आ ा की मात्रा के शब्दों के वाक्य बनाएं।

(दिया गया कार्य 3-1 कॉपी में करें।

पुस्तक पढ़ने का अभ्यास करें।)

➤ **Maths**

1. Mental Maths book - Pg. no: - 12, 14 and 17 to 19.
2. Step-up with Maths book - Pg. no: - 46
3. Do the given work in 3-in-1 notebook.
 - * Counting (1-200)
 - * Number names (1-20)
 - * 10 Addition sums (single digit)
 - * 10 Subtraction sums (single digit)

➤ **E.V.S.**

1. Make poster on any one of the following:
 - Healthy & Junk food
 - Good habits
 - Sense organs
 - Clothes we wear
 - Safety rules
2. Make a Scrap book – All about me – using Table Calendar

➤ **Drawing**

- **Art Magic :-** Page No. 8, 12, 14, 17, 26

- **Art & Craft:** - Page No. 4,5,9,12,15.

- **Make a wall hanging of Magic Words.**

➤ **Computer**

Make any one animal using CD.

- **Kindly encourage your ward to use following sentences in daily life.**

May, I quench my thirst.

“Can I please go to the restroom?”

I have finished my work.

I am done with my meal.

Excuse me, please help me.

“May I come in?”

Please give me.....

“May I take this?”

“May I sharpen my pencil?”

“May I help you?”



Yuvashakti Model School

इहोक्तेषु वारु इण्डिक्रुति

Sector-III, Rohini, Delhi-I 10085

ENGLISH WORKSHEET

NAME: _____

DATE: _____

Q. Write This or That in the blanks:



_____ is a doll.



_____ is a watch.



_____ is an apple.



_____ is the moon.



_____ is an umbrella.



_____ is a car.



_____ is a chair.



_____ is the rainbow.

HAPPY
HOLIDAYS